

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 30.09.2021

थाना खुदागंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 60 लाख रुपये कीमत की 600 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम व 02 मोबाइल बरामद कर अन्तर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर मुन्नापाल सिंह को किया गिरफ्तार।

श्री एस.आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम व मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना खुदागंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली।

आज दिनांक 30.09.2021 को थानाध्यक्ष खुदागंज, श्री वकार अहमद खाँ के नेतृत्व में थाना खुदागंज की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मुन्नपाल सिंह को टेहरा तिराहे के पास से समय करीब 06.15 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुदागंज पर मु0अ0सं0-314/2021 धारा 8/18 N.D.P.S Act अभियोग पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ:-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह अफीम किसानों से सस्ते दाम पर खरीदकर आस पास के जिलो शाहजहाँपुर बरेली व पीलीभीत आदि में मँहगे दर से बेचता हूँ। आज मैं यह अफीम बेचने के लिए पीलीभीत को जा रहा था कि आप लोगो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. मुन्नपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 314 /21 धारा 8/18 N.D.P.S Act थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

1. 600 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 60 लाख रुपये कीमत)

2. 02 मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खान थाना खुदागंज जि0 शाह0

2. उ0नि0 श्री राजपाल सिंह थाना खुदागंज जि0 शाह0।

3. का0 1261 दीपक पंवार थाना खुदागंज जि0 शाह0।

4. का0 1839 विशाल कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0।

5. का0 1841 शाहरुख हसन थाना खुदागंज जि0 शाह0।

6. का0 617 वीरेन्द्र कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0।